



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012025-260665  
CG-DL-E-31012025-260665

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 2025/माघ 11, 1946

No. 62]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 2025/MAGHA 11, 1946

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2025

सा.का.नि. 95(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का निर्माण (संत शिरोमणि दिगम्बर जैनाचार्य विद्यासागर महामुनिराज की प्रथम समाधि दिवस पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2025 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- सिक्के का मूल्यवर्ग.- संत शिरोमणि दिगम्बर जैनाचार्य विद्यासागर महामुनिराज की प्रथम समाधि दिवस पर केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए एक सौ रुपये मूल्यवर्ग का सिक्का ढाला जाएगा।
- सिक्के की विमाएं और संरचना.- नियम 2 में उल्लिखित उपरोक्त मूल्यवर्ग के सिक्के, निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात् :-

सिक्के का मूल्यवर्ग	आकार और बाह्य व्यास	दांतेदारों किनारे की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	चतुर्थक मिश्र धातु चांदी- 50 प्रतिशत तांबा- 40 प्रतिशत निकिल- 05 प्रतिशत जस्ता- 05 प्रतिशत

4. डिज़ाइन.— सिक्के का डिज़ाइन वह होगा जो इन नियमों की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

5. मानक वजन और अनुज्ञात उपचार.— संत शिरोमणि दिगम्बर जैनाचार्य विद्यासागर महामुनिराज की प्रथम समाधि दिवस पर नियम 2 में निर्दिष्ट मूल्यवर्ग के ढाले गए सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो इन नियमों की दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

#### प्रथम अनुसूची

[नियम 4 देखें]

#### एक सौ रुपये

##### अग्र भाग:

सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह स्तम्भ शीर्ष होगा, जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में “भारत” शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक “₹” और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “100” भी होगा।

##### पृष्ठ भाग:

सिक्के के इस भाग के मध्य में संत शिरोमणि दिगम्बर जैनाचार्य विद्यासागर महामुनिराज का चित्र होगा। चित्र के बाईं तरफ “कमंडल” (भारत की परंपरागत जलपात्र) और दाईं तरफ “पिच्छी” का चित्र होगा। सिक्के की उपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में “संत शिरोमणि दिगम्बर जैनाचार्य विद्यासागर महामुनिराज” एवं अंग्रेजी में “SANT SHIROMANI DIGAMBAR JAINACHARYA VIDYASAGAR MAHAMUNIRAJ” वर्णित होगा। संत शिरोमणि दिगम्बर जैनाचार्य विद्यासागर महामुनिराज के चित्र के नीचे अंतर्राष्ट्रीय अंकों में वर्ष “1946-2024” लिखा होगा।

## दूसरी अनुसूची

## [नियम 5 देखें]

सिक्के का मूल्यवर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		धातु संयोजन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ रुपये	35 ग्राम	चांदी के लिए 1/500वां हिस्सा जमा या घटा अर्थात् चांदी का अंश प्रति 1000 में 498 से 502 के बीच हो सकेगा।	1/100वां हिस्सा जमा या घटा अर्थात् वजन 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम तक हो सकता है।

[फा. सं. 02/03/2025 - सिक्का]

अपर्णा भाटिया, सलाहकार

**MINISTRY OF FINANCE**  
(Department of Economic Affairs)  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st January, 2025

**G.S.R. 95 (E).**— In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

**1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative Coin on first Samadhi Divas of Sant Shiromani Digambar Jainacharya Vidyasagar Mahamuniraj) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Denomination of coin.-** The coin of One Hundred Rupees denomination shall only be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government on first Samadhi Divas of Sant Shiromani Digambar Jainacharya Vidyasagar Mahamuniraj.

**3. Dimension and composition of coin.-** The denomination of the coin mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely: -

Denomination of coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Rupees	Circular 44 millimeter	200	Quaternary Alloy Silver - 50 per cent. Copper - 40 per cent. Nickel - 05 per cent. Zinc - 05 per cent.

**4. Design.-** The design of the coin shall be as specified in the First Schedule annexed to these rules.

5. **Standard weight and remedy allowed.**— The standard weight of the coin of denomination referred in rule 2 shall be coined on first Samadhi Divas of Sant Shiromani Digambar Jainacharya Vidyasagar Mahamuniraj and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule annexed to these rules.

### FIRST SCHEDULE

[See Rule 4]

#### ONE HUNDRED RUPEES

##### OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Devanagari script and on the right periphery with the word “INDIA” in English. It shall also bear the Rupee symbol “₹” and denominational value “100” in the international numerals below the Lion Capitol.

##### REVERSE:

This face of coin shall bear the image of **Sant Shiromani Digambar Jainacharya Vidyasagar Mahamuniraj** in the center of the coin along with the images of “KAMANDAL” (traditional water pot of India) on the left side and “PACHI” on right side. The inscription “संत शिरोमणि दिगम्बर जैनाचार्य विद्यासागर महामुनिराज” shall be written in Devnagari script and the inscription “SANT SHIROMANI DIGAMBAR JAINACHARYA VIDYASAGAR MAHAMUNIRAJ” in English shall be depicted on the upper periphery of the coin. The year “1946-2024” in international numeral shall be written below the image of Sant Shiromani Digambar Jainacharya Vidyasagar Mahamuniraj.

### SECOND SCHEDULE

[See Rule 5]

Denomination of coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Rupees	35 Grams	1/500 <sup>th</sup> plus or minus for Silver, that is to say the silver content may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100 <sup>th</sup> plus or minus, that is to say weight could be 34.65 grams to 35.35 grams.

[F. No. 02/03/2025 – Coin]

APARNA BHATIA, Adviser